

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रतिपत्र

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १०२]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून १३, १९६७/ज्याइस्था २३, १८९९

No. १०२]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 13, 1967/JYAISTHA 23, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 13th June 1967

G.S.R. 933.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 read with sub-section (3) of Section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 204/66 Central Excises, dated the 31st December, 1966 namely:—

In the Schedule to the said notification under the heading "III Uttar Pradesh", for entry (1), the following entry shall be substituted, namely:—

- "(1) Uttar Pradesh Drought Relief Committee,
1, Old Royal Hotel Building,
Vidhan Sabha Marg,
Lucknow".

[No. 117/67. F. No. 5/6/66-CX.I.]
S. K. BHATTACHARJEE, Jt. Secy.

(३०१)

